

শিশুদেরে জন্ম বাইবেলে
উপহার



नदीया में से
मिलल
राजकुमार



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

অভিযোজিত: M. Maillot; Sarah S.

অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।




प्रधानमंत्री, यूशुफ़ अब मर गेलन हल।
सौसे मिस्रवासी उनखर परिवार के
दुःख में शामिल होल। परमेस्वर
अकाल के घड़ी पूरा देस को
बचाबे लागी इब्रानी

युसुफ़ का इस्तेमाल
कैलथिन। ऊ एगो
बुद्धिमान
आउर प्रिय
अगुआ हलथिन।
अब ऊ ओखनी के
बीचे न रहलन।



तीन सौ बरीस से जादे समय बीत गेल हल। मिस्र में इब्रि,
यूशुफ़ के लोगवन, एगो सक्तिशाली गोत्र बन गेल हल। नयका
फिरोन इब्रियन से डरे लगलन की कही ऊ उनखर खिलाफ
बिद्रोह

नऽ
कर
दे
ऐही
से ऊ
ओखनी सभे
के गुलाम बना
देलथिन।



फिरोन इब्रियन के जौरे निर्दयतापूर्वक बर्ताब कैलन। ऊ भयानक शहर के बनाबे लागी ओखनी के मजबूर कईलन। लेकिन जेतना जादे भारी काम ओखनी देते गेलन, इब्रानी दास के आवादी बढ़ते ही रहल।



एगो दिन, फिरौन एगो डराबना आदेस देलन। “सभे छोटक छोटका इब्रियन बचबन के नील नदी में फेक देल।” दुष्ट फिरौन इब्रियन के संख्या कम करे लागी मजबूत फैसला लेलन। अब ऊ सभे छोटका बचबन के हत्या तक करतन!




ई परिवार के ई हैरान कर देलक होत, “अब हम का करियई?” ऊ नील नदीया में अपन बचबा के डाले के फैसला कैलन। बाकी ऊ पनिया में एगो सबसे अच्छा टोकरी के अन्दर रहतई।



छोटा टोकरी, एगो नाव नियन नरकटवन के बीचें में भार
उठईते अपन कीमती... नौभार के लेके आगे बहते चलल।

छोटका ननका बाबु के का कुछ हो
सकऽ हई?



बच्चा के बहिन अनमोल टोकरी
के दूर से नरकटवा के बीचे असते
असते वहते निहारते रहलन।



एकाएक फिरौन के बेटीया आउर उनखर नौकरानीयन नहाय
लागी नदी के किनारे अईलन। टोकरिया
छिपाबे लागी कोय रास्ता न हल। हो सकऽ
हे ऊ एकरा बिना देखले चल
जयथिन हल।



“ओह! एगो टोकरी हई हुआँ, नरकटबा के बिच में। अचरज के बात हे, अंदर का होतई” फिरोन के बेटी टोकरी के लाबेला नौकरानी के हुकुम देलथिन। जखनी ऊ ओकरा खोललन त बच्चा रोबे लागल। राजकुमारी हैरानी से बोललथिन “ई तो एगो ईब्री के बेटा हई।”



“बेचारा, तू तऽ बहुत सुन्दर हऽ।” फिरोन के बेटीया बचबा के जौरे ऐसे बात कैलथिन जैसन बड़ी उमरदार लोगबन बात करऽ हथीन। ऊ ई भी कहलथीन होत, “उटची - कूटची के-उम्स” मिस्र में जाहिर हथीन।



परमेश्वर बच्चा के बहिन के जरूर खास बुद्धि देलथिन होत। ऊ
फिरौन के बेटी भीर दौड़के गेलन। का हम कोय यहूदी औरत
के खोज लईयो जे तोरा लगी ई बचबा के देख रेख कर सकऽ
हे? हा जरूर जा, “जबाब देलथिन।” तोरा
का लगऽ हो कि ऊ लड़की केकरा
बोलाबे लागी दौड़ के
गेलथिन होत?



“माँ! जल्दी आबऽ! ओहो, जल्दी करऽ!” हो सकऽ हे लड़की
भीर समझाबे लागी समय न होतई। संगे- संगे दुनो राह
तक पहुचालन।



फिराऊन के बेटी बच्चा के नदी से बापस बाहरे निकाल के
कहलथिन। “हमरा लागी एकरा देख-भाल करऽ। हम तोहरा
दाम चुकैबो। एकरा मूसा के नाम
से बुलाबल जाय”
मिस्रीयो लागी
पानी से निकालल
बेटा, मूसा।



एही से मूसा अपन घर अपन माय-बाप
भीर लौट गेलन। ऊ उनखा परमेस्वर आउर
इब्री दुनो के प्यार करे ला सिखैलथिन।
जल्दी ही ऊ फिरौन
के बेटी जौरे महल
में रहे लागलन।
परमेसर, जौन
ओकर जान
बचैलथिन हे उनखा
भीर बालक मूसा
लागी महान
योजना हलयई।



नदीया में से मिलल राजकुमार

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

নির্গমন 2

“তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দয়ে।”

গীতসংহতি 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদেরে বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদেরে তরৈকিরছেনে এবং যনি চান আপনি তাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠয়িছেনে। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়ে স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বিাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্షমা চান, তিনি তা
করবনে! তিনি আসবনে এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবনে, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবনে।

যদি আপনি বশ্বিাস করনে য়ে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিাস করয়ি য়ে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেনে, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেনে।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্షমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরেরে সাথে কথা বলুন! জন 3:16

